

हिंदी पखवाड़े का आयोजन - रिपोर्ट

दि. 13-09-2021 से 27-09-2021 तक

दि. 13-09-2021 से 27-09-2021 तक इस कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े का उद्घाटन समारोह दि. 13-09-2021 को श्री. शैलेंद्र कुमार, क्षेत्रीय खान नियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम श्रीमती छाया ठाकुर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित हिंदी संपर्क अधिकारी एवं सभा में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जानेवाले कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी दी और उनके द्वारा सभी से आग्रह किया गया कि पखवाड़े के दौरान किये जानेवाले प्रतियोगिता में प्रति वर्ष की तरह सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उत्साह से बढ़चढ़ कर भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। तत्पश्चात श्री. शैवाल कार्तिकेय, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी एवं हिंदी संपर्क अधिकारी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सभी क्षेत्र के लोग जानते हैं। कार्यालय में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना चाहिए। अतः सभी से अनुरोध किया कि सिर्फ पखवाड़े के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करें। उपरान्त सभा के अध्यक्ष महोदय श्री. शैलेंद्र कुमार, क्षेत्रीय खान नियंत्रक महोदय ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि इस सरकारी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दे और अधिक से अधिक मुख्य रूपसे हिंदी में कार्य करें। इसी तरह प्रोत्साहन युक्त संबोधन के उपरान्त श्रीमती छाया ठाकुर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और साथ ही उद्घाटन समारोह का समापन हुआ।

दि.14-09-2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्रीजी श्री. अमित शाहजी और माननीय खान मंत्रीजी श्री. प्रल्हाद जोशीजी के संदेश का पठन किया गया और उपरान्त प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

क्र.सं.	दिनांक	प्रतियोगिता	प्रतिभागियों की संख्या
1.	14-9-2021	निबंध प्रतियोगिता	06
2.	16-9-2021	वाद-विवाद प्रतियोगिता	10
3.	20-9-2021	टिप्पण पत्रलेखन प्रतियोगिता	05
4.	22-9-2021	तत्काल भाषण प्रतियोगिता	06
5.	24-9-2021	अनुवाद प्रतियोगिता	11

दि. 27-09-2021 को श्री. इब्राहिम शरीफ, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक की अध्यक्षता में 'हिंदी पखवाड़े' के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्रीमती छाया ठाकुर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सभी का स्वागत किया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदी के प्रति सभी की रुचि को दर्शाते हुए कहा कि इस वर्ष हिंदी पखवाड़े के दौरान हुई प्रतियोगिताओं में अधिकतर अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया और सभी का उत्साह बढ़ाते हुए आशा व्यक्त की कि, इसी तरह हिंदी में कार्य के प्रति अपना उत्साह बनाएं रखें। उपरान्त श्री. शैवाल कार्तिकेय, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी एवं हिंदी संपर्क अधिकारी ने सभा को संबोधित किया। हिंदी में कार्य के प्रति सभी की रुचि को देखते हुए हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी भाषा के प्रति सभी की रुचि है। अतः इस कार्यालय में हमेशा लक्ष्य से अधिक कार्य होता है। आशा करता हूं कि सभी अधिकारी एवं इसी तरह हिंदी में अपनी रुचि बनाये रखेंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री. इब्राहिम शरीफ, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि,

केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि, हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक हिंदी में कार्य किए जाए।

तत्पश्चात पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अध्यक्ष महोदय श्री. इब्राहिम शरीफ के शुभ हस्ते पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं द्वारा निम्नानुसार पुरस्कार प्राप्त किए गए।

निबंध प्रतियोगिता

1. श्री. डी. पी. रविकुमार
2. श्री. एस. सुनीलकुमार
3. श्री. अभिषेक

टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता

1. श्रीमती पद्मिनी मेनन
2. श्री. डी. विजय कुमार
3. श्री. आर. तिमोथी

अनुवाद प्रतियोगिता

1. श्रीमती के. उमादेवी
2. श्रीमती सी.एच.सुशीला
3. श्री. वी. श्रीनिवास राव

वाद-विवाद प्रतियोगिता

1. श्री. मधुसुदन यादव
2. श्री. ए.वी.एन. मूर्ति
3. श्री. ए. वी. रमेश कुमार

तत्काल भाषण प्रतियोगिता

1. श्री. अजमत्उल्लाह शरीफ
2. श्री. वी. लक्ष्मी
3. कु. विनिशा

प्रोत्साहन पुरस्कार

श्री. लक्ष्मीनारायणा

अंत में श्रीमती छाया ठाकुर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह संपन्न हुआ।



उद्घाटन समारोह मंचासीन अध्यक्ष श्री. शैलेंद्र कुमार, क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं श्री. शैवाल कार्तिकेय, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी एवं हिंदी संपर्क अधिकारी



हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार एवं माननीय खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्राप्त संदेश का पठन करते हुए श्री. शैवाल कार्तिकेय, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी एवं हिंदी संपर्क अधिकारी



कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण



पुरस्कार वितरण समारोह



पुरस्कार वितरण समारोह